



Series **ΣHEFG**



Set-4

Q.P. Code **17**

Roll No.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

TIBETAN

Time allowed : 3 hours

Maximum Marks : 80

- དྲི་ཤོག་ལ་བར་དུ་འཁོད་པའི་ཨང་གི་ 11 དག་ཡོད་པས་ཞིབ་གཤེར་གནང་རོགས།
- དྲི་ཤོག་གི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་སློབ་པའི་ཀོཌ་ཨང་གི་དེ་འོས་མི་རྣམས་ཀྱིས་ལན་འདེབས་ཤོག་གུ་ལ་བཀོད་རྒྱུ།
- ལན་བྲིས་བའི་སྐོན་དུ་ཨང་མིམ་རྣམས་མིམ་པས་བྲིས་གནང་རྒྱུ།
- སྐར་མ་ 15 བར་དྲི་བ་སློག་རྒྱུ་ལོ་སྐབས་བཞེར་ཡོད། ཕུག་ཚེད་ 10:15 ལ་དྲི་ཤོག་བཀོད་འགྲེམས་གནང་རྒྱུ་དང་། ཕུག་ཚེད་ 10:15 ལས་ 10:30 བར་སློབ་ཕྱག་ཚོས་དྲི་བ་སློག་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ལན་འདེབས་གནང་མི་ཚོག

- Please check that this question paper contains 11 printed pages.
- Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- Please check that this question paper contains 8 questions.
- **Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.**
- 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.



General Instructions :

- (i) This question paper contains **four** sections.
- (ii) Section A – Applied Grammar (Marks : 15)
- (iii) Section B – Reading (Marks : 15)
- (iv) Section C – Writing (Marks : 25)
- (v) Section D – Literature (Marks : 25)

Section A (Grammar)

1) (Applied Grammar) ཉམས་འཇུག་ལས་ 13 ལ་ལན་གྱིས། ལན་རེར་ཨང་ 1 རེ་ཡོད། | (Marks : 15 × 1 = 15)

I) ཉམས་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- a) དབྱངས་གསལ་སྟོན་རྟོག་པ་ན། སྐད་སྐྱེ་གནས་དང་བྱེད་པ་ཚོལ་ལུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པས་ཉམས་འཇུག་ཟེད།
- b) སྟོན་རྟོག་པ་ན། སྐྱ་གདང་བྱེད་ཀྱི་ཚོལ་ལུགས་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པས་ཉམས་འཇུག་ཟེད།
- c) བོད་ཡིག་གི་སྐྱ་གདངས་ཆེ་ཆུང་ལ་བརྟེན་ནས་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པས་ཉམས་འཇུག་ཟེད།
- d) ཡི་གའི་ཉམས་པོ་མོ་ངོས་འདིན་གྱི་སྟོབ་མཚན་ཡིན་པས་ཉམས་འཇུག་ཟེད།

II) སྦྱར་མིང་གཞིའི་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གང་དང་གང་མཛད་ཡོད་དམ།

- a) མིང་གཞིའི་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། ལྷ། ལོ། ལྷུང་མེད། ལོ། ལུ་ལོ་བཅས་ལྷ་མཛད་ཡོད།
- b) མིང་གཞིའི་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། ལོ། ལ་ལོང། ལོ། ལེན་ཏུ་ལོ། ལོ་གཤམ་བཅས་ལྷ་མཛད་ཡོད།
- c) མིང་གཞིའི་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། དག་ལོ། ལེ་ལ། ལོ། ལེན་ཏུ་ལོ། ལོ་གཤམ་བཅས་ལྷ་མཛད་ཡོད།
- d) མིང་གཞིའི་ཉམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། ལོ། ལ་ལོང། ལོ། ལུས་མེད་ལོ། ལུས་ལྷན་པོ་བཅས་ལྷ་མཛད་ཡོད། ཡང་ན།
ཚ་བ་ལས། ལ་ལོ་མཚན་མེད་ཅེས་ཀྱང་བྱ། །ལེས་པར་ལ་ཡིག་མཚན་མེད་ཡི་གའི་ལྷ་མཚན་ནི།
- a) ལ་ཡིག་ནི་གསལ་བྱེད་སྐྱེ་ཏུ་ལས་མཐའ་མ་དེ་ཡིན་པའི་ཆེད་ཡིན།
- b) ལ་ཡིག་ནི་དབྱངས་ཀྱི་ཡི་གའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པའི་ཆེད་ཡིན།
- c) ལ་ཡིག་ནི་མིང་གཞི་པོ་ཡིག་ལས་སྐྱ་ཚོལ་ཆུང་པའི་ཆེད་ཡིན།



- d) ཨ་ཡིག་ནི་མོ་གཤམ་ཡི་གེ་ར་ལ་ཉ་གསུམ་ལས་ཀྱང་སྣོན་ལ་ཕྱིན་ཏུ་རྒྱུང་བའི་ཚེད་ཡིན།
- III) ལྟག་མ་རྒྱག་ནི་མོ་རྒྱ་རྒྱུན། ཞེས་པ་ལྟར་ཡི་གེ་རྒྱག་མོ་དོས་འཛིན་གྱིས།
- a) ལྟག་མ་རྒྱག་ནི། ད། ཉ། བ། མ། ཡ། ས་དང་རྒྱག་ཡིན།
 - b) ལྟག་མ་རྒྱག་ནི། ལ། ར། ས། མ། ར། ས་དང་རྒྱག་ཡིན།
 - c) ལྟག་མ་རྒྱག་ནི། ལ། ར། ལ། ཡ། ཡ། ས་དང་རྒྱག་ཡིན།
 - d) ལྟག་མ་རྒྱག་ནི། ལ། ར། ད། ལ། ཉ། ཨ་དང་རྒྱག་ཡིན།
- ཡང་ན།
- ཅ་བ་ལས། ལྟག་མ་བརྒྱ་བཞི་གནས་པར་གྱུ། ། ཞེས་བའི་ཡི་གེ་ལྟག་མ་བརྒྱ་བཞི་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ།
- a) ཉ་ས་ད་ན། ད་མ་བ་མ། ཅ་ཚ་ཇ་སྡ། ཉ་ཨ་བཅས་ཡི་གེ་ལྟག་མ་བརྒྱ་བཞི་ཡིན།
 - b) ཅ་ཚ་ཇ་སྡ། ལ་ཟ་འཕ། ད་ལ་ཤ་ས། ཉ་ཨ་བཅས་ཡི་གེ་ལྟག་མ་བརྒྱ་བཞི་ཡིན།
 - c) ཉ་ས་ད་ན། ཅ་ཚ་ཇ་སྡ། ད་ལ་ཤ་ས། ཉ་ཨ་བཅས་ཡི་གེ་ལྟག་མ་བརྒྱ་བཞི་ཡིན།
 - d) ཅ་ཚ་ཇ་སྡ། ལ་ཟ་འཕ། ད་ལ་ཤ་ས། ཉ་ཨ་བཅས་ཡི་གེ་ལྟག་མ་བརྒྱ་བཞི་ཡིན།
- IV) ལྟོན་འཇུག་མོ་བ་ཡིག་གིས་འཇུག་ཡུལ་མེད་གཞིའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་ཡོད་པ་དེ་དེ་ནས་ཐོམ་གྱིས།
- a) བརྒྱ་ཡིག་ནི། ཅ། ཚ། ད། ལ། ཡ། མ། ག། བ། ཅ། མ། ད། བ། མ། ར། ས། ས་རྣམས་ཡིན།
 - b) བརྒྱ་ཡིག་ནི། བ། ར། ད། ལ། བ། ར། ལ། ར། མ། བ། མ། ར། ད། ལ། ས་རྣམས་ཡིན།
 - c) བརྒྱ་ཡིག་ནི། ལ། ར། མ། བ། ཚ། ར། ཉ། ད། བ། ར། ལ། ར། མ། ར། ལ། ར། ལ། ས་རྣམས་ཡིན།
 - d) བརྒྱ་ཡིག་ནི། ག། ཅ། ཉ། ཅ། བ། ར། ཉ། ད། བ། ར། ལ། ར། མ། ར། ལ། ས་རྣམས་ཡིན།
- V) ལྟོན་འཇུག་ལ་རྟགས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ག་ཚེད་ཡོད་པ་སོ་སོར་ཐོམ་གྱིས།
- a) ག། ཅ། ཉ། བ། ཅ་རྣམས་སོ། ལ། ར། མ། ད་རྣམས་སོ། ད། ཉ། བ། མ་མ་འིང་དང་གསུམ་ཡོད།
 - b) ག། ཅ། ཉ། བ། ཅ་རྣམས་སོ། ལ། ར། མ། ད་རྣམས་སོ། ད། ཉ། བ། མ་ཕྱིན་ཏུ་མོ་དང་གསུམ་ཡོད།
 - c) ལ། ཅ། ཉ། བ། ཅ་རྣམས་སོ། ད། ར། ར། ད་རྣམས་སོ། ད། ལ། ཉ། ཨ་ཕྱིན་ཏུ་མོ་དང་གསུམ་ཡོད།
 - d) བ་ཡིག་རྣམས་སོ། བ། ར་མ་འིང་། འ་མོ། མ་ཕྱིན་ཏུ་མོ་དང་གསུམ་ཡོད།
- ཡང་ན།
- མོ་ཡི་ཡི་གེའི་ནང་ནས་ནི། ཞེས་བའི་མོ་ཡིག་དོས་འཛིན་གྱིས།
- a) མོ་ཡི་ཡི་གེ་ཞེས་ནི། ད། ཉ། བ། མ་ཞེས་བ་བཞི་ལ་ཟེད།
 - b) མོ་ཡི་ཡི་གེ་ཞེས་ནི། ད། ཉ། བ། མ་ཞེས་བ་བཞི་ལ་ཟེད།
 - c) མོ་ཡི་ཡི་གེ་ཞེས་ནི། ད། དབྱུངས་བཞི་ལ་ཟེད།
 - d) མོ་ཡི་ཡི་གེ་ཞེས་ནི། དབྱུངས་གསལ་གཉེས་ཀྱི་སྤོ་གསལ་གྱེད་ཀྱི་སྤེ་བ་ལྗེ་ལས་སོ། ཕྱིན་ཏུ་མོ། མོ་གཤམ་གསུམ་ལ་མའིང་བ་དེ་ཡིན།
- VI) བདག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བ་མཛད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།
- a) བྱེད་པ་སོ་དང་བྱེད་པའི་ཡུལ་གྱི་བྱ་ཚིག་སྟོན་བའི་ཚེད་དུ་བདག་གཞན་མཛད་པ་ཡིན།



- b) བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བའི་ཡུལ་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་བདག་གཞན་མཛད་པ་ཡིན།
- c) བཞེས་པའི་ང་དང་ཁྱོད་ཅེས་པ་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་བདག་གཞན་མཛད་པ་ཡིན།
- d) བྱེད་པ་པོ་དང་བྱ་བའི་ཡུལ་གྱི་མིང་ཆོག་སྟོན་པའི་ཆེད་དུ་བདག་གཞན་མཛད་པ་ཡིན།

VII) དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- a) བདག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བས་ཁྱབས་པའི་བྱ་ཆོག་སྟོན་པའི་ཆེད་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན།
- b) དུས་ཆོག་དེས་ཆན་གྱི་ཆོག་སྟོན་པའི་ཆེད་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན།
- c) བདག་གཞན་གྱི་དབྱེ་བས་མ་ཁྱབ་པའི་བྱ་ཆོག་སྟོན་པའི་ཆེད་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན།
- d) དུས་ཆོག་སྟོན་པའི་ཆེད་དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་མཛད་པ་ཡིན།

VIII) བྱ་ཆོག་ལ་དབྱེ་ན་གང་དག་ཡོད་དམ།

- a) བྱེད་པ་པོ་ལ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་དང་བྱ་བའི་ཡུལ་ལ་ཡོད་པའི་བྱ་བ་གཉིས་ཡོད།
- b) བྱེད་པ་པོ་གཙོ་བོ་དང་། བལ་བ། བྱ་ཡུལ་གྱི་ལས་དང་གསུམ་ཡོད།
- c) བོད་སྐད་ལ་བྱ་ཆོག་གངས་གྱི་མི་ལང་བ་ཡོད།
- d) མིང་རྒྱུད་གི་ཆོག་སྟོན་པས་གཅིག་ཡོད།

IX) མ་ཞིང་གཉིས་ཀ་ཞེས་པའི་གཉིས་ཀ་གང་ཡིན་ནམ།

- a) མ་ཞིང་གཉིས་ཀ་ཞེས་པ་ནི། ག ད། གཉིས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།
- b) མ་ཞིང་གཉིས་ཀ་ཞེས་པ་ནི། འགྱུར་བ་མ་ཞིང་དང་མཚན་གཉིས་མ་ཞིང་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།
- c) མ་ཞིང་གཉིས་ཀ་ཞེས་པ་ནི་བདག་དང་གཞན་གཉིས་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།
- d) མ་ཞིང་གཉིས་ཀ་ཞེས་པ་ནི། མཚན་མེད་མ་ཞིང་དང་མཚན་གཉིས་མ་ཞིང་ལ་ཟེར་བ་ཡིན།

X) སྟོན་འཇུག་པོ་བ་ཡིག་དུས་འདས་པ་ལ་འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད་གང་ཡིན་ནམ།

- a) བརྟ། བརྟོ་གཉིས་ནི་དུས་འདས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།
- b) བཀའ། བཀའ་གཉིས་ནི་དུས་འདས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།
- c) བསྐྱབས། བསྐྱབས་གཉིས་ནི་བ་ཡིག་དུས་འདས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།
- d) བཞེས། བཞེས་གཉིས་ནི་དུས་འདས་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཡིན།

XI) སྟོན་འཇུག་ཡི་གེ་ལྡ་དབྱེད་བྱ། ཞེས་པའི་བོ་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- a) དེ་ནི་མིང་གཞིའི་ནང་ནས་སྟོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྡ་བཏོན་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།
- b) དེ་ནི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ནང་ནས་སྟོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྡ་བཏོན་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།
- c) དེ་ནི་རྗེས་འཇུག་བཅུ་ཡི་ནང་ནས་སྟོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྡ་བཏོན་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།
- d) དེ་ནི་རྗེས་བྱེད་པའི་ཆོག་གི་ནང་ནས་སྟོན་འཇུག་གི་ཡི་གེ་ལྡ་བཏོན་དགོས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན།



XII) སྔོན་འཇུག་མོ་མེ་ཡིག་བདག་གཞན་དུས་གསུམ་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ནམ།

- a) སྔོན་འཇུག་མོ་ནི། དུས་མ་འོངས་པ་དང་གཞན་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།
- b) སྔོན་འཇུག་མོ་ནི། དུས་འདས་པ་དང་གཞན་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།
- c) སྔོན་འཇུག་མོ་ནི། དུས་ད་ལྟ་བུ་དང་བདག་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།
- d) སྔོན་འཇུག་མོ་ནི། དུས་འདས་པ་དང་བདག་ལ་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།

XIII) ཅ་བ་ལས་གཤིས་ལྟ་བུ་མོ་ནི་མཉམ་ལྗེས་རྟོག་གི་ ཞེས་པར་མཉམ་པའི་དོན་ནི།

- a) དེ་ལྟར་མཉམ་ཞེས་པ་ནི། ལྟ་བུ་མོ་དང་། ཉུ ར། མ་བཞི་ལོ་འཇུག་རྒྱལ་ལྟར་པའི་དོན་ཡིན།
- b) དེ་ལྟར་མཉམ་ཞེས་པ་ནི། བདག་གཞན་གཉིས་ལ་མཉམ་པར་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན།
- c) དེ་ལྟར་མཉམ་ཞེས་པ་ནི། བདག་གཞན་གཉིས་དང་། དུས་གསུམ་ཀར་མཉམ་པར་འཇུག་པའི་དོན་ཡིན།
- d) དེ་ལྟར་མཉམ་ཞེས་པ་ནི། དུས་གསུམ་ཆར་འཇུག་པ་མཉམ་པའི་དོན་ཡིན།

XIV) བསྐྱབས་ཞེས་པའི་ཚིག་འདི་དུས་གསུམ་གང་ཡིན་ནམ།

- a) འདི་དུས་འདས་པའི་བྱ་ཚིག་ཡིན།
- b) འདི་དུས་མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚིག་ཡིན།
- c) འདི་དུས་ད་ལྟ་བུ་པའི་བྱ་ཚིག་ཡིན།
- d) འདི་དུས་གསུམ་ཆར་འགོ་བའི་ཚིག་ཡིན།

XV) མ་ཞིང་རང་ལ་རང་ལ་མི་འཇུག། ཅེས་པའི་དོན་གང་ཡིན་ནམ།

- a) མིང་གཞིའི་མ་ཞིང་སྔོན་འཇུག་གི་མ་ཞིང་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།
- b) སྔོན་འཇུག་གི་མ་ཞིང་གཉིས་མིང་གཞིའི་མ་ཞིང་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།
- c) སྔོན་འཇུག་གི་མ་ཞིང་གཉིས་རྗེས་འཇུག་གི་མ་ཞིང་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།
- d) སྔོན་འཇུག་གི་མ་ཞིང་ག་ད་གཉིས་མིང་གཞིའི་ག་དང་ད་གཉིས་ལ་མི་འཇུག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན།

Section B Reading

27 (Comprehension) གཤམ་གསལ་བརྗོད་པ་ལས་ 8 ལན་གྱིས། ལན་རེ་རེར་ཨང་རེ་ཡོད། (Marks : 15 x 1 = 15)

༢༧། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་པའི་ཉ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོ་མཚོག་རབ་བྱུང་གསུམ་པའི་རྒྱ་ལྷན་(སྤེལ་ ༡༡༤༩) ལ་ཡལ་འཕྲོན་དཔལ་ཚེན་འོད་པོ་དང་ཡུམ་མ་ཅིག་གར་བྱ་ཉི་མེ་གཉིས་ཀྱི་སྤེལ་སྤྱུ་འབྲུངས། རྒྱུང་དུས་མཚན་ལ་དཔལ་ལྷན་དོན་གྲུབ་གསོལ། སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུས་ནས་ཡལ་ཀྱི་རྒྱུང་ནས་ཡི་གེ་འབྲི་རྒྱུ་དང་གསང་སྤྲུགས་ཀྱི་དབང་ལྷིང་དུ་མ་གསན་བསམ་མཛད། ལྷ་སོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་དགེ་བསྐྱེན་ཀྱི་སྤོམ་པ་བཞེས་ཉེ་མཚན་ལ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསོལ། ལྷ་སོ་ལས་ས་སྐྱ་གོང་མའི་གསུང་བཅས་མདོ་སྤྲུགས་ཟབ་གནད་ཡོངས་རྗོགས་གསན་ཉམས་མཛད། སྤེལ་ ༡༩༠༤ ལོར་ལ་ཆེ་པའི་ཉ་ཀུན་ལོད་དུ་ཕེབས་པ་དང་མཛུགས་སྐྱེས་པ་རྗོགས། དེ་ནས་ལོ་བཞིའི་རྗེས་སྤེལ་ ༡༩༠༤ ལོར་ལ་ཆེ་པའི་ཆེན་ལས་བསྐྱེན་པར་རྗོགས། འོད་གི་སྤོམ་མ་སྐྱ་ལོད་དང་ད་ན་ལྷོལ་གཉིས་ལས་རིག་གནས་བཅུ་



ཡོངས་རྫོགས་མཁུ་བར་བྱང་རྒྱུ་བ་མཛད། འཕགས་པ་འཇམ་དབྱངས་དང་། ལྷ་སྐྱབ་སོགས་ལྷ་དང་རྒྱ་མམ་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས། གཙང་
 ཁོ་ལྷ་ཁ་ཆེ་བ་ཆེན་གྱིས་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཚན་བརྗོད་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་གསུངས་བ་ལ་ས་སྐྱ་བཞེ་ཉལ་བོད་དཔེ་བཀམས་ཏེ་
 གཟིགས་གསུང་གི་མང་པོ་མཛད་པའི་སྐབས་ཁ་ཆེ་བཞེ་ཉལ་ཁོང་ལ་བོད་ཀྱི་བཞེ་ཉལ་ཞེས་མཚན་གསོལ་བས་བོད་མིར་བཞེ་ཉལ་མཚན་བྱང་བ་དང་
 བོ་ཡིན། ཚད་མ་རྣམ་ཀུན་བསྐྱུས་དང་། ལྷ་བ་བ་དགོངས་གསལ། ལེགས་བར་བཤད་པའི་རིན་པོ་ཆའི་གཏེར་སོགས་བསྐྱུ་བཅོས་མང་པོ་བོད་
 ཀྱི་འདུལ་བྱའི་དོན་དུ་ལྷགས་ཚུལ་མཛད། མཐར་དབྱེད་གངས་ ༡༢ དབྱེད་ལོའི་རྒྱ་སྐྱ་ཡི་བཞོད་པ་ལེ་ཞིག་ལྷ་དལ་ལས་འདས་སོ། MCQ

- I) འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་བཞེ་ཉལ་ག་དུས་སྐྱ་འཇུངས་སམ།
 - a) ཁོང་གྱི་ལོ་ ༡༡༤༢ ལོར་སྐྱ་འཇུངས་བ་ཤིང་།
 - b) ཁོང་གྱི་ལོ་ ༡༡༡༢ ལོར་སྐྱ་འཇུངས་བ་ཤིང་།
 - c) ཁོང་གྱི་ལོ་ ༡༡༤༣ ལོར་སྐྱ་འཇུངས་བ་ཤིང་།
 - d) ཁོང་གྱི་ལོ་ ༡༡༤༤ ལོར་སྐྱ་འཇུངས་བ་ཤིང་།

- II) ས་བཏ་སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུས་སྐབས་ཀྱི་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།
 - a) ས་བཏ་སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུས་ཀྱི་མཚན་ལ་བཏ་ཆེན་འོད་པོ་ཟེར།
 - b) ས་བཏ་སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུས་ཀྱི་མཚན་ལ་ལྷ་པོ་དོན་གྲུབ་ཟེར།
 - c) ས་བཏ་སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུས་ཀྱི་མཚན་ལ་དཔལ་ལྷན་ཚོས་རྒྱལ་ཟེར།
 - d) ས་བཏ་སྐྱ་ན་རྒྱུང་དུས་ཀྱི་མཚན་ལ་དཔལ་ལྷན་དོན་གྲུབ་ཟེར།

- III) ས་བཞེ་ཉལ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།
 - a) ཡབ་དཔལ་ལྷན་འོད་པོ་དང་། ཡུམ་མ་ཅིག་གོར་བུ་ཉི་མེ་གཉིས་ཤིང་།
 - b) ཡབ་དཔལ་ཆེན་འོད་པོ་དང་། ཡུམ་མ་ཅིག་གར་བུ་ཉི་མེ་གཉིས་ཤིང་།
 - c) ཡབ་དཔལ་ལྷན་འོད་པོ་དང་། ཡུམ་མ་གཉིས་གར་བུ་ཉི་མེ་གཉིས་ཤིང་།
 - d) ཡབ་དཔལ་ལྷན་འོད་པོ་དང་། ཡུམ་མ་ཅིག་གར་བུ་ཉི་མེ་འབྲུམ་གཉིས་ཤིང་།

- IV) ས་བཏ་ཀྱི་དགེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་སྐྱ་ལས་ཞུས་སམ།
 - a) དགེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ནི་ཁོང་གི་ཁྱེད་པོ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཞུས།
 - b) དགེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ནི་ཁོང་གི་གཙུག་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཞུས།
 - c) དགེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ནི་ཁོང་གི་ཁྱེད་པོ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཞུས།
 - d) དགེ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ནི་ཁོང་གི་ཁྱེད་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཞུས།

- V) བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ཞུས་ཏེ་ས་བཏ་ཀྱི་མཚན་ལ་གང་ཞུས་སམ།
 - a) བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ནི། ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཞུས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསོལ།
 - b) བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྐྱོམ་པ་ནི། ཡབ་ཆེན་ལས་ཞུས་ཇེས་ཁོང་གི་ཀུན་དགའ་རབ་མཚན་ཞེས་མཚན་གསོལ།



- a) ཁོང་གཉིས་ལས་ཚོས་འཁོར་བརྩུ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་མཁས་པར་བྱང་རྩུབ་པ་མཛད།
- b) ཁོང་གཉིས་ལས་སྐྱལ་ལ་ཁོར་བརྩུ་ལ་སོགས་པ་ཡོངས་རྫོགས་མཁས་པར་བྱང་རྩུབ་པ་མཛད།
- c) ཁོང་གཉིས་ལས་རིག་གནས་བརྩུ་ལ་སོགས་ཡོངས་རྫོགས་མཁས་པར་བྱང་རྩུབ་པ་མཛད།
- d) ཁོང་གཉིས་ལས་གངས་གནས་བརྩུ་ལ་སོགས་ཡོངས་རྫོགས་མཁས་པར་བྱང་རྩུབ་པ་མཛད།

XI) ས་བཏུ་ལ་ལྟ་དང་གླ་མ་སྐྱ་དང་སྐྱུ་ལ་ཞལ་གཟིགས་གནང་ངམ།

- a) ཉ་དབྱངས་དང་། ལོ་སྐྱུ་སོགས་ལྟ་དང་གླ་མས་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན།
- b) དབྱངས་ཅན་མ་དང་། བཏུ་སྐྱུ་སོགས་ལྟ་དང་གླ་མས་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན།
- c) དབྱངས་སྒོ་དང་། འོ་སྐྱུ་སོགས་ལྟ་དང་གླ་མས་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན།
- d) འཇམ་དབྱངས་དང་། ལྟ་སྐྱུ་སོགས་ལྟ་དང་གླ་མས་ཡང་ཡང་ཞལ་གཟིགས་པ་ཡིན།

XII) གཙང་ཁོ་ལུང་ཁ་ཆེ་བཏུ་ཆེན་གྱིས་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་མཚོན་བཛོད་རྒྱ་གར་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་དུ་གསུངས་པ་ལ་ས་སྐྱ་བརྗེ་ཉལ་གང་གི་སྒོ་ནས་གཟིགས་སམ།

- a) ས་བཏུ་གྱིས་རྒྱ་ནག་པའི་ཡི་གེའི་སྒོ་ནས་གཟིགས།
- b) ས་བཏུ་གྱིས་ཞང་གཞུང་གི་ཡི་གེའི་སྒོ་ནས་གཟིགས།
- c) ས་བཏུ་གྱིས་རྟོར་ཡིག་གི་ཡི་གེའི་སྒོ་ནས་གཟིགས།
- b) ས་བཏུ་གྱིས་ལེགས་སྦྱར་གྱི་ཡི་གེའི་སྒོ་ནས་གཟིགས།

XIII) བོད་དུ་བརྗེ་ཉ་ཡི་མཚོན་གནས་དང་ཤོས་བོད་ཀྱི་གླ་མ་སྐྱ་ལ་ཐོབ་ངམ།

- a) དེ་ནི་ས་སྐྱའི་གླ་མ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཐོབ་པ་དང་ཤོས་རེད།
- b) དེ་ནི་གླ་མ་ཚོང་ཁ་བ་སྒོ་བཟང་གྲགས་པའི་མཚོག་ལ་ཐོབ་པ་དང་ཤོས་རེད།
- c) དེ་ནི་ཀམ་བ་དུས་གསུམ་པར་ཐོབ་པ་དང་ཤོས་རེད།
- d) དེ་ནི་བཏུ་ཆེན་ཚོས་གྱི་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཐོབ་པ་དང་ཤོས་རེད།

XIV) ས་སྐྱ་ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་ལ་བོད་ཀྱི་བརྗེ་ཉ་ཞེས་མཚན་གནས་སྐྱུ་སྐྱུ་ལ་ཡིན་ནམ།

- a) ཁ་ཆེ་བརྗེ་ཉ་སྐྱ་མ་ཉི་ཤི་མཚོག་ནས་སྐྱུ་ལ་རེད།
- b) ཁ་ཆེ་བརྗེ་ཉ་སྐྱ་ཤི་མཚོག་ནས་སྐྱུ་ལ་རེད།
- c) ཁ་ཆེ་བརྗེ་ཉ་ཤུ་ཤི་མཚོག་ནས་སྐྱུ་ལ་རེད།
- d) ཁ་ཆེ་བརྗེ་ཉ་ར་རྩལ་ཤི་མཚོག་ནས་སྐྱུ་ལ་རེད།

XV) ས་སྐྱ་བརྗེ་ཉལ་ལྷགས་ཚོམ་མཛད་པའི་བསྟན་བཅོས་གང་དག་ཡིན་ནམ།

- a) བསྟན་བཅོས་ཚོང་མ་རྣམ་ཀུན་བསྐྱུ་དང་། ལུབ་བ་དགོངས་གསལ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་རིན་པོ་ཆའི་གཏེར་སོགས་མཛད།
- b) བསྟན་བཅོས་ཚོང་མ་རྣམ་ཀུན་བསྐྱུ་དང་། དབུ་མ་དགོངས་གསལ། ལེགས་པར་བཤད་པའི་རིན་པོ་ཆའི་གཏེར་སོགས་མཛད།



- c) ལྷ་བྱ་གོང་མོ། སྤྲེལ་གཞོན་མཚང་། བྱ་རྒྱལ་ཚོང་པོ། གོ་བོ་མྱེད་དཀར་སོགས་ཡིན།
- d) མི་བྱ་གོང་མོ། སྤྲེལ་གཞོན་མཚང་། བྱ་རྒྱལ་ཚོང་པོ། གོ་བོ་གདོང་དཀར་སོགས་ཡིན།

III) བྱ་སྤྲེལ་གཉེས་ཚོང་བ་ཚོང་དགོས་དོན་གང་བྱུང་ངམ། 2 Marks

- a) སྤྲེལ་བྱ་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྤྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོང་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་རེད།
- b) སྤྲེལ་སྤྲེལ་ལེ་གནས་སྤྲེལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོང་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་རེད།
- c) སྤྲེལ་ལོན་གཞོན་བ་དང་སྤྲེལ་བར་རྒྱུ་ལེ་བྱུང་ནས་ཚོང་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་རེད།
- d) བྱ་ཚོང་གིས་སྤྲེལ་མཚུ་རྩོམ་པོ་བརྟེན་ནས་ཚོང་རྒྱུ་དེ་བྱུང་བ་རེད། ཡང་ན།

- རི་བོང་དང་དེ་པོ་གཉེས་མཉམ་རྒྱུ་བྱེད་དོན་གང་ཡིན་ནམ་གསལ་པོ་བྲིས།
- a) དེ་ལྟར་མཉམ་རྒྱུ་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། ཁོང་གཉེས་ཀྱིས་བྱ་སྤྲེལ་གྱི་ཚོང་རྒྱུ་དེ་ཆེ་ཤུ་གཏོང་ཐབས་བྱས་པ་རེད།
 - b) དེ་ལྟར་མཉམ་རྒྱུ་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། ཁོང་གཉེས་ཀྱིས་བྱ་སྤྲེལ་གྱི་ཚོང་རྒྱུ་དེ་འགྲིག་ཐབས་བྱས་པ་རེད།
 - c) དེ་ལྟར་མཉམ་རྒྱུ་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། ཁོང་གཉེས་ཀྱིས་བྱ་སྤྲེལ་གྱི་ཚོང་རྒྱུ་དེ་ཅད་གཅོད་ཐབས་བྱས་པ་རེད།
 - d) དེ་ལྟར་མཉམ་རྒྱུ་བྱེད་དགོས་དོན་ནི། བྱ་སྤྲེལ་གྱི་ཚོང་རྒྱུ་དེ་ཁྲིམས་ཁང་ལ་སྤྲེལ་ཐབས་བྱས་པ་རེད།

IV) རྩོད་དམག་གིས་ཐོག་མར་བོད་ཀྱི་ལུང་བ་གང་དང་གང་ལ་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་བྲིས། 2 Marks

- a) རྩོད་དམག་ནས་བོད་ས་རྒྱལ་ཅེ་གཞི་ས་གསུམ་དང་ལྷ་སར་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་རེད།
- b) རྩོད་དམག་ནས་བོད་ས་མངའ་རི་རྩོད་གསུམ་དང་དབུས་སྤུ་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་རེད།
- c) རྩོད་དམག་ནས་བོད་ས་གཉེན་སྤྱི་དོང་གསུམ་དང་རྫོང་དཀར་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་རེད།
- d) རྩོད་དམག་ནས་བོད་ས་ཨ་ཆབ་ཁམས་གསུམ་དང་སྤེ་གེར་འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པ་རེད།

6) (Poetry,) ལྷོན་དག་ལས་ 3 ལ་ཡན་བྲིས། (Marks: 07)

- I) གཞུགས་རྒྱན་གྱི་གོ་དོན་དང་གཞུགས་རྒྱན་དཔྱེ་བ་ཇི་ཡོད་སོ་སོ་ནས་བྲིས། (3) ཡང་ན།
བསྐྱུས་པའི་གཞུགས་ཅན་དང་མ་བསྐྱུས་པའི་གཞུགས་ཅན་གྱི་བྱུང་བར་གང་ཡིན་པ་བྲིས།
- II) །སོར་མེ་དམར་བའི་འདབ་ཕྱེད་དང་། །སེན་མོའི་འོད་ཀྱི་གེ་སར་ཅན། (2)
།ཁྲིད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཚུ་སྤྲེལ་ནི། །ས་སྤྲོད་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་འཛིན། །ཞེས་པར་འགྲེལ་བཤམ་བྲིས། ཡང་ན།
གང་འདྲ་ཞིག་ལ་མཐའ་དག་གཞུགས་ཅན་ཟེར་ངམ།

- III) ལྷོན་དག་མེ་ལོང་ཚོམ་བ་པོ་དང་དེ་བོད་རྣམས་དང་ཆ་ཚང་སྤྲུང་མཁན་སྤྱི་ཡིན་ནམ། (2) ཡང་ན།
མཐའ་དག་གཞུགས་ཅན་ལ་རང་ཚོམ་ཚིགས་བཅད་གཅིག་བྲིས།

7) (Drama) རི་དྲུགས་གཏམ་དེས་འབྲུང་གི་ཕོ་ཉ་ལས་ 3 ལ་ཡན་བྲིས། (Marks : 3x2=6)

- I) རི་དྲུགས་ཀྱི་གཏམ་དེས་འབྲུང་གི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པ་དེ་སྤྲུམ་མཛད་པ་དང་དེ་ལ་ལེའུ་ཇི་ཡོད་དམ། (02) ཡང་ན།
རི་དྲུགས་ཀྱི་དེད་དཔན་རིག་པའི་རྒྱ་བའི་དགོངས་དོན་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་ནམ།



II) ཅེའི་ཕྱིར་ཚོན་པས་དྲང་སྲོང་གི་གཏམ་ལ་མ་ཉན་པ་རེད་དམ། (02) Marks

III) རི་དྲགས་རྣམས་སྣང་ཤུབ་ལས་ཐོན་པ་འདྲ་བ་བཅུ་གཉིས་གང་དང་གང་ཡིན་ནམ། (2) ཡང་ན།
རི་དྲགས་འདོད་པའི་ལྷ་མཚོ་ག་ཅེས་པ་དེ་གང་འདྲ་ཡོད་དམ།

8) (Rapid Reading) མཛད་རྣམ་ལས་གཉིས་ལ་ལན་གྱིས། (Total Marks 05)

I) ས་མཚམས་སུ་ཡིད་སྐྱེའི་རང་བཞིན་གང་མཛོད་རྒྱ་ཡོད་དམ། 3 Marks ཡང་ན།

ནེ་རུ་བོད་རུ་ཐེབས་མ་སྟུབ་པ་ཅི་ཡིན་ནམ། ཡང་ན།

སློབ་བཟང་ཡི་ཤེས་ཟེར་བ་སུ་ཡིན་ནམ།

II) ཉེ་ལམ་ལོར་ནས་གང་གནང་དགོས་སྤང་ངམ། 2 Marks ཡང་ན།

རྒྱ་མིས་ཤ་རུས། སྤང་མ་འཁོར་ཟེར་བ་སུ་ལ་ཟེར་ངམ།